

# Ezr

## Chapter 7

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

וְאַחַר הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה בְּמַלְכוּת אֲרֻחְשֵׁתָא מֶלֶךְ-פָּרַס שָׂרָא בֶן-שָׂרָיָה 1  
और-बाद-में बार्तो इन राज्ज-में अर्तक्षस्त्र-के राजा फारस-के एज्रा पुत्र सरायाह-के

[H8304](#)

[H5830](#)

[H6539](#)

[H4428](#)

[H4438](#)

[H0428](#)

[H1697](#)

הַלְקִיָּהּ:

हिल्किय्याह-के

[H2518](#)

בֶּן-

पुत्र

עֲזָרְיָה

अजर्याह-के

[H5838](#)

בֶּן-

पुत्र

फारस के राजा अर्तक्षत्र के शासनकाल में इन सब बार्तो के हो जाने के बाद एज्रा बाबेल से यरूशलेम आया। एज्रा सरायाह का पुत्र था। सरायाह अजर्याह का पुत्र था। अजर्याह हिल्किय्याह का पुत्र था।

בֶּן-אֲהִיטֹב :  
अहीतूब-के पुत्र

[H0285](#)

בֶּן-צָדוֹק  
सादोक-के पुत्र

[H6659](#)

בֶּן-שְׁלֹמֹם  
शल्लूम-के पुत्र

[H7967](#)

हिल्किय्याह शल्लूम का पुत्र था। शल्लूम सादोक का पुत्र था। सादोक अहीतूब का पुत्र था।

בֶּן-מְרַיֹת :  
मरायोत-के पुत्र

[H4812](#)

בֶּן-עֲזָרְיָה  
अजर्याह-के पुत्र

[H5838](#)

בֶּן-אֲמַרְיָה  
अमर्याह-के पुत्र

[H0568](#)

अहीतूब अमर्याह का पुत्र था। अमर्याह अजर्याह का पुत्र था। अजर्याह मरायोत का पुत्र था।

בֶּן-בֻּקִּי :  
बुक्की-के पुत्र

[H1231](#)

בֶּן-עֲזְרָא  
उज्जी-के पुत्र

[H5813](#)

בֶּן-זְרַחְיָה  
जरह्याह-के पुत्र

[H2228](#)

मरायोत जरह्याह का पुत्र था। जरह्याह उज्जी का पुत्र था। उज्जी बुक्की का पुत्र था।

בֶּן-הַרְאִשׁ :  
मुख्य

[H3548](#)

בֶּן-הַכֹּהֵן  
याजक

[H0175](#)

בֶּן-אַהֲרֹן  
हारून-के पुत्र

[H0175](#)

בֶּן-אֶלְעָזָר  
एलआजार-के पुत्र

[H0499](#)

בֶּן-פִּינְחָס  
पीनहास-के पुत्र

[H6372](#)

בֶּן-אַבִּישׁוּעַ  
अबीशूआ-के पुत्र

[H0050](#)

बुक्की अबीशू का पुत्र था। अबीशू पीनहास का पुत्र था। पीनहास एलीआज़र का पुत्र था। एलीआज़र महायाजक हारून का पुत्र था।

הָיוּ יְהוּוָה  
यहोवा-ने

[H3068](#)

נָתַן דִּי-תֵי  
दी-थी जो

[H5414](#)

אֲשֶׁר-מֹשֶׁה  
मूसा-की

[H4872](#)

בְּתוֹרַת  
व्यवस्था-में

[H8451](#)

מִהַר-שִׁפְרָא  
निपुण शास्त्री

[H4106](#)

וְהוּא-מִבְּבֶל  
और-वह-था

[H1931](#)

עָלָה עֲזָרָא  
आया एज्रा

[H5927](#)

וְהָיָה  
वही

[H1931](#)

כָּל-עַלְיוֹ  
सब उस-पर

[H3605](#)

אֱלֹהֵינוּ  
उसके-परमेश्वर-के

[H0430](#)

יְהוּוָה  
यहोवा-के

[H3068](#)

כִּדְ-לְ  
हाथ-के-अनुसार

[H3027](#)

לְהַמְלִיךָ  
राजा-ने

[H4428](#)

לְוַיָּתֵן  
और-दिया

[H5414](#)

וְיִשְׂרָאֵל  
इसाएल-के

[H3478](#)

אֱלֹהֵינוּ  
परमेश्वर

[H0430](#)

בְּ

-

בְּקִשְׁתּוֹ :

उसकी-बिनती

[H1246](#)

एज्रा बाबेल से यरूशलेम आया। एज्रा का शिक्षक था। वह मूसा के नियमों को अच्छी तरह जानता था। मूसा का नियम यहोवा इस्राएल के परमेश्वर द्वारा दिया गया था। राजा अर्तक्षत्र ने एज्रा को वह हर चीज़ दी जिसे उसने माँगा क्योंकि यहावा परमेशवर एज्रा के साथ था।

וַהֲתִינִים और-नतीनीम H5411	וְהִשְׁעָרִים और-द्वारपालों H7778	וְהַמְשָׁרְרִים और-गवैयाँ H7891	וְהַלְוִיִּם और-लेवियों H3881	הַכֹּהֲנִים याजकों-में-से H3548	וּמִן और	יִשְׂרָאֵל इसाएल-के H3478	מִבְּנֵי- कुछ-पुत्रों-में-से	וַיַּעֲלוּ और-आए H5927	7
-----------------------------------	---	---------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	-------------	---------------------------------	---------------------------------	------------------------------	---

אֶל- יְרוּשָׁלַם בְּשָׁנַת- שֶׁבַע לְאַרְתַּחְשֶׁטָא הַמֶּלֶךְ:  
को यरूशलेम वर्ष-में सातवें अर्तक्षस्त-के राजा  
H0413 H3389 H8141 H7651 H4428

इसाएल के बहुत से लोग एज्रा के साथ आए। वे याजक लेवीवंशी, गायक, द्वारपाल और मन्दिर के सेवक थे। इसाएल के वे लोग अर्तक्षत्र के शासनकाल के सातवें वर्ष यरूशलेम आए।

וַיָּבֵא יְרוּשָׁלַם בְּחֹדֶשׁ הַחֲמִישִׁי הָיָא שָׁנַת הַשְּׁבִיעִית לְמֶלֶךְ: और-आया-एज्रा यरूशलेम-को महीने-में पाँचवें जी-था वर्ष-में सातवें राजा-के H0935 H3389 H2320 H2549 H1931 H8141 H7637 H4428	8
---	---

एज्रा यरूशलेम में राजा अर्तक्षत्र के राज्यकाल के सातवें वर्ष के पाँचवें महीने में आया।

כִּי בָּאָהָר לְחֹדֶשׁ הָרִאשׁוֹן הוּא יוֹדֵהַמַּעֲלָה מִבְּבֶל וּבָּאָהָר לְחֹדֶשׁ הַחֲמִישִׁי בָּא आया — — — — — — — — — H0935 H2549 H2320 H0259 H0894 H3246 H1931 H7223 H2320 H0259	9
--	---

אֶל- יְרוּשָׁלַם כִּי-בָּא- יְרוּשָׁלַם אֶל-הַיּוֹדֵהַמַּעֲלָה וְעָלִיו:  
को यरूशलेम हाथ-के-अनुसार उसके-परमेश्वर-के भले उस-पर  
H0413 H3389 H3027 H4941

एज्रा और उसके समूह ने बाबेल को पहले महीने के पहले दिन छोड़ा। वह पाँचवें महीने के पहले दिन यरूशलेम पहुँचा। यहोव परमेश्वर एज्रा के साथ था।

כִּי עָזְרָא הָכִין לְחֹדֶשׁ הָרִאשׁוֹן לְדָרוֹשׁ אֶת- תּוֹרַת יְהוָה וְלַעֲשׂוֹת क्योंकि एज्रा-ने तैयार-किया-था खोजने-के-लिए - व्यवस्था यहोवा-की और-करने-के-लिए H5830 H1875 H0853 H8451 H3068	10
--	----

וְלִלְמֹד בִּישְׂרָאֵל וְלִלְמֹד אֶת-יְרוּשָׁלַם וְלִלְמֹד אֶת-יְרוּשָׁלַם וְלִלְמֹד אֶת-יְרוּשָׁלַם:  
और-सिखाने-के-लिए इसाएल-में विधियाँ और-नियम  
H3925 H3478 H2706 H4941

एज्रा ने अपना पूरा समय और ध्यान यहोवा के नियमों को पढ़ने और उनके पालन करने में दिया। एज्रा इसाएल के लोगों को यहोवा के नियमों और आदेशों की शिक्षा देना चाहता था और वह इसाएल में लोगों को उन नियमों का अनुसरण करने में सहायता देना चाहता था।

וְהָיָה כִּי יִשְׂרָאֵל יִשְׂרָאֵל יִשְׂרָאֵל יִשְׂרָאֵל יִשְׂרָאֵל יִשְׂרָאֵל יִשְׂרָאֵל יִשְׂרָאֵל יִשְׂרָאֵל יִשְׂרָאֵל विशेषज्ञ शास्त्री याजक एज्रा-को अर्तक्षस्त-ने राजा दिया जो पत्र-की प्रतिलिपि और-यह-है H3548 H5830 H4428 H5414 H5406 H2088	11
--	----

וְהָיָה כִּי יִשְׂרָאֵל יִשְׂרָאֵל יִשְׂרָאֵל יִשְׂרָאֵל יִשְׂרָאֵל יִשְׂרָאֵל יִשְׂרָאֵל יִשְׂרָאֵל יִשְׂרָאֵל יִשְׂרָאֵל:  
और-उसकी-विधियों-के यहोवा-के आज्ञाओं-के शब्दों-में  
H1697 H4687 H3068 H2706 H3478

एज्रा एक याजक और शिक्षक था। इसाएल को यहोवा द्वारा दिये गए आदेशों और नियमों के बारे में वह पर्याप्त ज्ञान रखता था। यह उस पत्र की प्रतिलिपि है जिसे राजा अर्तक्षत्र ने उपदेशक एज्रा को दिया था।

וְהָיָה כִּי יִשְׂרָאֵל יִשְׂרָאֵל יִשְׂרָאֵל יִשְׂרָאֵל יִשְׂרָאֵל יִשְׂרָאֵל יִשְׂרָאֵל יִשְׂרָאֵל יִשְׂרָאֵל יִשְׂרָאֵל पूर्ण-शांति आकाश-के परमेश्वर के व्यवस्था-का शास्त्री याजक एज्रा-को राजाओं-का राजा अर्तक्षस्त H1585 H8065 H0426 H1768 H1882 H5613 H3549 H5831 H4430 H4430	12
---	----

וְכַעֲנַת:  
इत्यादि  
H3706

राजा अर्तक्षत्र की ओर से, याजक एज्रा को जो स्वर्ग के परमेश्वर के नियमों का शिक्षक है: अभिवादन!

13 מִנִּי מְנִי שִׁים טַעִים הָיָה כָּל- מִתְנַדְּבִים בְּמִלְכוּתִי מִן- עַמָּה יִשְׂרָאֵל  
 मैंने जारी-किया-है एक-आज्ञा कि सब जो-स्वेच्छा-से-जाए से लोगो-में-से से लोगो-के  
[H4481](#) [H7761](#) [H2942](#) [H1768](#) [H3606](#) [H5069](#) [H4437](#) [H4481](#) [H5972](#) [H3479](#)

וְכַהֲנָוְהָי וְלוֹיָא לְמַהָרָה לְיְרוּשָׁלַם עִמָּךְ יָהָרָה :  
 और-उनके-याजको और-लेवियों और-ले-लिए जाने-के-लिए यरूशलेम-को तेरे-साथ जाए  
[H3549](#) [H3879](#) [H1946](#) [H3390](#) [H5974](#) [H1946](#)

मैं यह आदेश देता हूँ: कोई व्यक्ति, याजक या इस्राएल का लेवीवंशी जो मेरे राज्य में रहता है और एज्रा के साथ यरूशलेम जाना चाहता है, जा सकता है।

14 כָּל- קָבַל הָיָה מִן- קָרָם מֶלֶךְ וְשָׁבַעַת יַעֲטָהּי שְׁלֵיחַ  
 सब अनुसार और-जबकि से द्वारा राजा-के और-सात उसके-मंत्रियों तू-भेजा-जा-रहा-है  
[H3606](#) [H6903](#) [H1768](#) [H4481](#) [H6925](#) [H4430](#) [H7655](#) [H7972](#)

לְבַקְרָא עַל- יְהוּדָה וְלְיְרוּשָׁלַם בְּרַת אֱלֹהֵיךָ הָיָה בִּירְךָ :  
 जाँच-करने-के-लिए विषय-में यहूदा और-यरूशलेम-के और-यरूशलेम-के-अनुसार तेरे-परमेश्वर-की जो तेरे-हाथ-में-है  
[H1240](#) [H5922](#) [H3061](#) [H3390](#) [H1882](#) [H0426](#) [H1768](#) [H3028](#)

एज्रा, मैं और मेरे सात सलाहकार तुम्हें भेजते हैं। तुम्हें यहूदा और यरूशलेम को जाना चाहिये। यह देखो कि तुम्हारे लोग तुम्हारे परमेश्वर के नियमों का पालन कैसे कर रहे हैं। तुम्हारे पास वह नियम है।

15 וְלִהְיִבְלָהָ כָּסֶף וְדָהָב הָיָה מֶלֶךְ וְיַעֲטָהּי הַתְּנַדְּבוֹ לְאֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל  
 और-ले-जाना चाँदी और-सोना जो राजा-ने और-उसके-मंत्रियों-ने स्वेच्छा-से-दिया-है परमेश्वर-को इस्राएल-के  
[H2987](#) [H3702](#) [H1722](#) [H1768](#) [H4430](#) [H5069](#) [H0426](#) [H3479](#)

הָיָה בְּיְרוּשָׁלַם מְשֻׁכָּנָה :  
 जिसका यरूशलेम-में निवास-है  
[H1768](#) [H3390](#) [H4907](#)

मैं और मेरे सलाहकार इस्राएल के परमेश्वर को सोना—चाँदी दे रहे हैं। परमेश्वर का निवास यरूशलेम में है। तुम्हें यह सोना चाँदी अपने साथ ले जाना चाहिये।

16 וְכָל- כָּסֶף וְדָהָב הָיָה תְּהַשְׁכַּח בְּכָל- מְדִינַת בָּבֶל עִם- הַתְּנַדְּבוֹת עַמָּה  
 — — — तू-पाए सब-में प्रांत बाबेल-के साथ-में स्वेच्छा-भेंट लोगो-की  
[H3606](#) [H3702](#) [H1722](#) [H1768](#) [H7912](#) [H3606](#) [H4083](#) [H0895](#) [H5974](#) [H5069](#) [H5972](#)

וְכַהֲנָוְהָי וְכַהֲנָוְהָי מְתַנְּדְּבוֹי לְבֵית אֱלֹהֵהֶם הָיָה בְּיְרוּשָׁלַם :  
 और-याजको-की स्वेच्छा-से-दी-जाए भवन-के-लिए उनके-परमेश्वर-के जो यरूशलेम-में-है  
[H3549](#) [H5069](#) [H1005](#) [H0426](#) [H1768](#) [H3390](#)

तुम्हें बाबेल के सभी प्रान्तों से होकर जाना चाहिये। अपने लोगों, याजकों और लेवीवंशियों से भी भेंटें इकट्ठी करो। ये भेंटें उनके यरूशलेम में परमेश्वर के मन्दिर के लिये हैं।

17 כָּל- קָבַל הָיָה אֶסְפְּרָנָא תְּקִנָּא בְּכִסְפָּא דְנָהּ אַתּוּרִין בַּלְּמֵי דְכָרְוִין אֶמְרִין  
 इसलिये अब इसलिये इसलिये तत्परता-से खरीदो धन-से इस बल बैल मेंदे और-मेमने  
[H3606](#) [H6903](#) [H1836](#) [H0629](#) [H7066](#) [H3702](#) [H1836](#) [H8450](#) [H1798](#) [H0563](#)

וּמְנַחֲתָהוֹן וְנִסְכֵּיהוֹן וְתַקְרָב הַפִּזוֹ עַל- מִדְּבָחָה הָיָה בֵּית  
 और-उनके-अन्नबलियों-के-साथ और-उनके-अर्घों-के-साथ और-चढ़ाओ उन्हें पर की भवन  
[H4504](#) [H5261](#) [H7127](#) [H1994](#) [H5922](#) [H4056](#) [H1768](#) [H1005](#)

אֱלֹהֵיכֶם הָיָה בְּיְרוּשָׁלַם :  
 तुम्हारे-परमेश्वर-के जो यरूशलेम-में-है  
[H0426](#) [H1768](#) [H3390](#)

इस धन का उपयोग बैल, मेढ़े और नर मेमने खरीदने में करो। उन बलियों के साथ जो अन्न भेंट और पेय भेंट चढ़ाई जानी है, उन्हें खरीदो। तब उन्हें यरूशलेम में अपने परमेश्वर के मन्दिर की वेदी पर बलि चढ़ाओ।





हमारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की स्तुति करो। उस ने राजा के मन में ये विचार डाला कि वह यरूशलेम में यहोवा के मन्दिर का सम्मान करे।

28

הַמֶּלֶךְ שָׂרִי וְלְכָל-וְיֹעֲצָיו וְהַמֶּלֶךְ לְפָנָיו הַטָּהֳרָה וְעָלָיו  
राजा-के हाकिमों और-सब-के-सामने और-उसके-मंत्रियों राजा-के सामने दया बढ़ाई-है और-मुझ-पर  
[H4428](#) [H8269](#) [H3605](#) [H3289](#) [H4428](#) [H6440](#) [H5186](#)

מִיִּשְׂרָאֵל וְאֶקְבְּצָהּ עָלַי אֱלֹהֵי מֵרֵי-פַרְמֶשְׁוֹר-כֶּה-יְהוָה יְהוָה-כֶּה-אֲנִי הַתְּחַתְּקָתִי וְאֲנִי הַגְּבוּרִים  
इसाएल-से और-मैंने-इकट्ठा-किए मुझ-पर मेरे-परमेश्वर-के यहोवा-के हाथ-के-अनुसार बलवन्त-हुआ तब-मैं शक्तिशाली  
[H3478](#) [H6908](#) [H0430](#) [H3068](#) [H3027](#) [H2388](#) [H0589](#) [H1368](#)

פְּ - עִמָּי : לְעֹלֹת רָאשֵׁים  
- मेरे-साथ जाने-के-लिए प्रधानों-को  
[H5927](#)

यहोवा ने राजा, उसके सलाहकारों और बड़े अधिकारियों के सामने मुझ पर अपना सच्चा प्रेम प्रकट किया। यहोवा मेरा परमेश्वर मेरे साथ था, अतः मैं साहसी रहा और मैंने इस्राएल के प्रमुखों को अपने साथ यरूशलेम जाने के लिये इकट्ठा किया।